

तस्वीरों में कहानियां

The Odd Goose

अजीब हंस

Vidya and Rajaram Sharma

विद्या और राजाराम शर्मा



इस कहानी के फोटो 2020 में मैसूर जिले की हादिनारु झील में लिए गए।

संभव है कि पुस्तक के चित्र पक्षियों के वास्तविक आकार को न दिखाएँ।



THE ODD GOOSE published by VIDYA ONLINE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Unported License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Permissions beyond the scope of this license may be available at admin@vidyaonline.org

<http://vidyaonline.net>

तस्वीरों में कहानियां

अजीब हंस

विद्या और राजाराम शर्मा

हिंदी : अरविन्द गुप्ता



A PARTNERSHIP FOR TEACHERS, CHILDREN AND EDUCATION

A photograph of several Cotton Pygmy Geese in a shallow, marshy wetland. One bird is in the foreground, facing right. Two more birds are in the middle ground, one facing left and one facing right. A fourth bird is in the background, also facing right. The water is light-colored and reflects the surrounding environment.

What's got into Mr. Cotton Pygmy Goose?


What?

Who is Mr. Cotton Pygmy Goose, you ask?

मिस्टर कॉटन पिग्मी गूँज को क्या हो गया है?

क्या?

पर वो मिस्टर कॉटन पिग्मी गूँज कौन हैं? तुम जरूर पूछोगे?

A close-up photograph of a white duck with a black cap and red eyes, swimming in a pond. The water is filled with small, yellowish-brown reeds. The duck's reflection is clearly visible in the water below it.

Well, he is not a pygmy.

देखो, वो निश्चित रूप से बौना (पिग्मी) नहीं हैं.

A close-up photograph of a white duck with black markings and red eyes, swimming in a pond. The duck has a white head with a black patch around its eye, a black back, and a white belly. It is surrounded by water and some reeds in the background.

And certainly not cottony,

वो पक्षे तौर पर कपास (कॉटन) का नहीं बना है,




But a duck, like all geese.

अन्य बतखों की तरह, वो भी एक बतख ही हैं।

The smallest of ducks.
Perhaps a part of his name
is because of that.

वो बत्तखों में सबसे छोटा है.
शायद उसका आधा नाम, उसी वजह से पड़ा है.



He has a round cotton white head ...


उसका गोल सिर सफेद कपास जैसा है ...





A black cap, a black band and blackish wings
touched with the glossiest green,

उसकी एक काली टोपी और काली पट्टी है,
कालापन लिए उसके पंखों पर एक चमकीले हरे रंग की चमक है.



Though his lady has none of these, but shares his shape
and habits of course, a gander he certainly is.

उसकी पत्नी के पास वैसा कुछ भी नहीं है।

लेकिन उसका आकार-प्रकार और उसकी आदतें अपने पति जैसी ही हैं।



This is Mr. Cotton Pygmy Goose.


तो यह हैं मिस्टर कॉटन पिग्मी गू़ज़.

I know ... I know ... You want to know what's
got into Mr. Cotton Pygmy Goose!

मुझे पता है ... मुझे पता है ...

तुम जानना चाहते हो कि
मिस्टर कॉटन पिग्मी गूज़ को
क्या हो गया है?





Now, look at his tribe, with their goose-like bill,
skimming for juicy reed or floating plants,

अब, जरा उसके परिवार को देखो, अपनी बत्तखों
जैसी चोंचों से किसी रसीले पत्ते या
तैरते पौधे खोजते हुए ...

Grouping up to dazzle as they fly; rapidly
and in perfect formation,

समूहों में उनकी उड़ान चकाचौंध करने वाली होती है.
तेजी से और बिल्कुल सही गठन में उड़ते हुए ...



Or quaking and paddling along, peacefully ...


या क्वैक-क्वैक करते हुए शांति से तैरते हुए ...



A Cotton Pygmy Goose is captured in mid-stride on a wet, reflective surface, likely a pond or lake. The bird has a distinctive white head with a dark stripe through its eye, a dark brown back, and a white belly. It is moving from left to right, creating a large, circular splash behind it. Another smaller bird is visible in the background to the right.


Oh! Do be patient, I am getting there; waiting to tell you
what's got into Mr. Cotton Pygmy Goose!

अरे! थोड़ा धीरज रखो,
यही तो बताने जा रहा हूं; यही कि
मिस्टर कॉटन पिग्मी गूऱ्ज को हो क्या गया है!




While his tribe is all peaceful and quiet, here he is,
chasing his Lady,

जब उसका बाकी सारा परिवार शांत और चुपचाप है,
वो यहां, अपनी पत्नी का पीछा कर रहा है.




Again and again

वो बार-बार,



Quaking at her loudly,

उसे ज़ोर-ज़ोर से बुला रहा है.




Again and again
वो बार-बार,



Making her patter,

उसे पंख फड़फड़ाकर

भागने को उकसा रहा है,



Making her take to her heels,

फिर वो उसे परेशान करके वहाँ से
भागने को मज़बूर कर रहा है,



After all that ...

और उसके बाद ...

A photograph of two Indian spot-billed ducks swimming in a pond. One duck is white with black markings on its head and neck, while the other has more extensive brown and white plumage. They are surrounded by aquatic plants and reeds.

Driving her in circles,

वो अपनी पत्नी को गोल-गोल चक्रों में,



Round and round,

घूमने को मज़बूर कर रहा है,

A white-fronted duck is swimming in a pond. The water is light blue and filled with many small, yellowish-brown aquatic plants. The duck has a distinctive white patch around its eye and a green speculum feather on its wing.

Again and again.

बार-बार.



In full view of all others,

बाकी अन्य बत्तखों के सामने,



Bar Headed Geese, Garganeys, Wigeons,
Whistling Ducks, Coots and many more.

जैसे बार हेडेड गीज़, गार्गनीज़, विजन्स, व्हिस्लिंग डक्स,
डुबडुबी आदि.



What could have possibly gotten into him?

पता नहीं उसके दिमाग में क्या फितूर छाया है?





How I wish I knew!

Do you, by any chance know, what's got
into Mr. Cotton Pygmy Goose?



काश मुझे पता होता!

क्या तुम्हें उसका कोई अंदाज़ है,
कि मिस्टर कॉटन पिग्मी गूज़ को क्या हो गया है?



Other titles

BAR CODING

A WOVEN TALE

MAKING OF THINGS – COLOURS

Vidya
Online

A PARTNERSHIP FOR TEACHERS, CHILDREN AND EDUCATION

Visit <http://vidyaonline.net> for more titles